

3899000

F.D

Ran

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RANJEET KUMAR RAUT S O RAM GULAM RAUT S O RAM GULAM RAUT VILL PO BHEJA WARD 7 ANCHAL MADHEPUR, DIST MADHUBANI 847408 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No 84850300001877
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1001242444
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No MP6D04124
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 84850200000069
		शाखा का नाम/Branch Name LAXMIPUR MADHEPUR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
नामांकन / Nomination	Y	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)
पैन नंबर / PAN No.	ASLPR6594D	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF	
लियन चिह्नित / Lien Marked	N	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
540000	10-01-2024	7.25	36 Months 0 Days	10-01-2027	669895

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. खाते का प्रस्थान न वार्षिक है 2. खाते नवीकरण काल यदि अवधि अनुवर्षा न दिनांक हो तो 1 वर्ष से इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण वार्षिक पर प्रचालन खाते दरो के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा 3. यदि निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय खाते पर प्रचालन खाते दरो के अनुरूप इसी ही अवधि के लिए किया जाएगा 4. जोर 15 जी और 15एच शिफ्ट निवासी खाते के लिए है 5. निवासी व्यक्तिगत द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी या 15एच खाते खोलना होगा, प्रस्तुत किया जाए अन्यथा खाते पर कर कटौती की जाएगी 6. खाते एक कालक सीनियर सिटिजन (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा 7. निवासी निवासी कालक 8. खाते के अंतर्गत जमा राशि का समग्र पूर्व वद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् वद करने के बाद खाते की तिथि पर लागू काट दरो से 1% कम खाते का भुगतान किया जाएगा 9. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समग्र पूर्व वद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् वद करने के बाद खाते की तिथि पर लागू काट दरो से 1.5% कम खाते का भुगतान किया जाएगा 8. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समग्र पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि का आहरण के कम से कम 31 दिन पहले बैंक का सूचना दी जानी चाहिए 10. निवर्तित खाते के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank 7. In case of 'NON-CALLABLE DEPOSIT' - Premature withdrawal not allowed
--	---

Pledge to E.E.R.W.D.W.D - J. Ramji

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

FOR BANK OF BARODA

10/1/24

RAJENDU KUMAR RAUT S O RAM GULAM RAUT
S O RAM GULAM RAUT, VILL PO BHEJA
WARD 7, ANCHAL MADHEPUR, DIST MADHUBANI
847405
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	84850300001984
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FD R1204244333
करंटमर आईडी क्र./ Customer ID No	MP6D04124
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	84850200000069
शाखा का नाम/Branch Name	LAXMIPUR MADHEPUR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RRD(RES)
नामांकन / Nomination	Y
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1
पैन नंबर / PAN No.	ASLPR6594D
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अव्ययस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

बिद्युत चिह्नित / Lien Marked

रक्का राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	रक्का की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
1200000	12-04-2024	7.25	36 Months 0 Days	12-04-2027	1438656

*परिचयना मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. काला का परिचय है परिचित है
2. काला का परिचय है परिचित है

यदि प्रत्यक्ष अनुभव न दिए हों तो 1 वर्ष से पहले अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि को सर्वप्रथम वेतन प्राप्त या प्रयोजन समाप्त वक्त के अनुक्रम 1 को के लिए दिया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान 1 वर्ष के काम अधिकांश शिक्षकों की मदद प्रशासकों का नवीकरण देय
सर्व शिक्षा अभियान का अन्तर्गत काम है अधिकांश शिक्षकों का नवीकरण देय

1972-73 में 1.57 लाख निर्धन परिवारों को लाभ हुआ है।

15. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
क. 1. एक व्यक्ति का नाम है। प्रश्न पूछा जाय। अन्तर्गत आने पर वह भद्रता की जायगी।

जो 1 मी. 10 सें. तक लंबा साधारण 60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाये।

1. 1990年12月1日以前

• विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर - पर्यावरणला पूर्ण आकृष्ट को अनुमति नहीं है

1. Rate of Interest is in percentage per annum
2. Automatic Renewal Clause

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year: Deposits will not earn interest for the same period of the prevailing rate of interest on the due date. For instance, if the rate is 10% on 1st April 2019, and the deposit is issued on 1st March 2019, the deposit will not earn interest for the period from 1st March to 31st March 2019.

3 Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only

4. A fresh 15G, 15H, 15AA (if applicable) has to be submitted by Respondents, as a condition for each Financial Year, prior to crossing the threshold liability of 10% TDS. These are deducted.

6. Entry 11d can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).

b. Premature Withdrawal Clause


ii. Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore shall attract 1% per cent less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.

g. Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1% penalty, i.e. 1% less than call rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

7 In case of NON-CALLABLE DEPOSIT – Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

PLACE TO = E.E.R.W.D.W.D. THANDHARPUR



RANJEET KUMAR RAUT S/O PAM GULAM RAUT
S/O PAM GULAM RAUT, VILL PO BHILJA
WARD 7 ANCHAL MADHE PUR, DIST MADHURBANI
847408
INDIA

सहायि खाता क्र./FD A/c No	8485727272727272
सहायि सूचना क्र./FD Advice No	112312345678910
कार्टर आईडी क्र./Customer ID No	12345678910
व्यवस्था खाता /Linked Operative a/c	8485727272727272
शाखा क्र./Branch Name	1234567891012345

योजना / Scheme	FEDERAL GOVT - MIDC(MS)
नामांकन / Nomination	Y
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominees Registration No.	1
टैन नंबर / PAN No	A5I PR6594D
चरित्रकाल पद्धति / Mode of Operation	SLEP

अधिकार धारक / Joint Holder (s)
 अधिकार धारक का नाम
 (सर्वे साक्षिमाताओं द्वारा साक्ष्य के अंतर्गत)
 Guardian Name
 (If sole holder is minor)

विद्युत चिह्नित / Lion Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	स्वाम्यता / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिमaturity तिथि / Maturity Date	परिमaturity मूल्य / Maturity Value
₹52,000/-	12-04-2024	7.25	36 Months 0 Days	12-04-2027	₹82,124.2

*परिमज्जा मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current income tax rules)

નિયમ વ શર્ત/Terms & Conditions:

1. The rate of interest on deposits is payable as per schedule.
 2. Anticipation of Premature Closure
 - a) For Deposits secured for a period of 1 year and above: Deposits will be redeemed at 10% at the prevailing rate of interest on the due date if not withdrawn otherwise.
 - b) For Deposits secured for a period of less than 1 year: Deposits will be redeemed on the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not withdrawn otherwise.
 3. From 15% and 16% is applicable to Resident accounts only.
 4. A flat 10%, 11%, 12%, 14% is added to the respective scheduled bank's interest rates on deposits.
 5. From 11% onwards is added to the respective scheduled bank's interest rates on deposits.
 6. Premature withdrawal of deposit
 - a) Premature withdrawal of deposit with term 1 year will attract 10% penalty on the less than fixed rate on the day of withdrawal. For less than the scheduled bank's interest rate.
 - b) Premature withdrawal of deposit for 1 year and above will attract 10% penalty on the less than fixed rate on the day of withdrawal. For less than the scheduled bank's interest rate.
 - c) Premature withdrawal of deposit for 1 year and above will attract 10% penalty on the less than fixed rate on the day of withdrawal. For less than the scheduled bank's interest rate.

Purple rib: this is a neutral question asked and does not require any signature

Executive Engineer
RWD Works Division
Benipur

$PLE8E \cdot 70 = E \cdot E \cdot \rho \cdot w \cdot D - w \cdot D$

3 JANUARY 1978
- ~~DATA~~ ~~FILE~~
12/14/78

RANJEET KUMAR RAUT S/O RAM GULAM RAUT
S/O RAM GULAM RAUT, VILL PO BHEJA
WARD 7, ANCHAL MADHEPUR, DIST MADHUBANI
847402
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	84850300001986
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDAR1204242926
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	MPSD004124
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	84850200000089
शाखा का नाम/Branch Name	LAXMI PUR MAHES PUR

योजना / Scheme	EXID DE POSH - RIRD(RES)
नामन / Nomination	Y
नामिले पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1
पैन नंबर / PAN No.	ASLPR6594D
प्रकारण पद्धति / Mode of Operation	SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (5)

अभिभावक का नाम
(यदि छात्राधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

निगज चिह्नित / Lien Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	समयदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	पक्कावत तिथि / Maturity Date	पक्कावत मूल्य / Maturity Value
₹15000	12-04-2024	7.25	36 Months 0 Days	12-04-2027	373829

परिपक्वता मान्य है और के अंश (वर्तमान अवधि निर्धार) के अंतर्गत। Maturity Value is subject to TDS (as per current Income tax rules)

Figure 4. Terms & Conditions:

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2. $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

१. यदि जनता अनुशासित नहीं हो तो १ वर्ष में हमसे अधिक अधिक के लिए की गई जनशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग प्रशासनिक कार्यों के अन्तर्गत १ वर्ष के लिए किया जाएगा।

न. कोई निदेशन दिए जाने पर 1 वर्ष में कम अवधि के लिए की गई प्रमाणित की नहीं करना देय
महीने पर प्रमाणित प्राप्त होने पर अवधि 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा

$$2 \quad (a, b) \in \mathcal{B} \Rightarrow (b, a) \in \mathcal{B} \quad \text{and} \quad (a, a) \in \mathcal{B} \quad \text{for all } a \in \mathcal{A}.$$

१. निम्नलिखित वाक्यों को द्वारा प्रयोग के लिये सही वर्ग में व्यवस्थित करें। (प्रति सौभाग्य पूर्ण होने से पूर्व प्रश्न क्रमांक 15 तक)।
 (क) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828.

5. संविधान के अन्तर्गत राज्यों की शक्ति के विस्तार हेतु कौन से अनुच्छेद लागू हैं?

6. $\frac{1}{2} \ln 2$ and $\frac{1}{2} \ln 2$

[illegible]

9. एक समान्तर श्रृंखला में, प्रथम पद 10 है और अंतिम पद 50 है। श्रृंखला में 10 पदों का योग ज्ञात करें।

[illegible]

1. Rate of Interest is in percentage per annum.

2 Automatic Renewal Clause

ii. For Deposits issued for a period of 1 year and above: Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest, on the due date if not instructed otherwise.

4) For Deposits issued for a period of less than 1 year: Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not renewed otherwise.

3 Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

4. A fresh 15G, 16H, 15AA (if applicable) may be submitted by Resident, without a fee, for each Financial Year prior to crossing the five-year limit. Being 15G is 100% deductible.

5. Form 154 can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).

6 Premature Withdrawal Clause

Is from state of affairs of deposit business Rs. 1 crore will attract 1% less than old rate as on the date of increase, but also provided the same is maintained - in 90%

[illegible]

7. In case of NON-CALLABLE DEPOSIT – Premature withdrawal of the deposit will be subject to a penalty of 1% of the deposit amount.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

PLEGE TO: E.E.R.W.D - W.D - ~~RAUSPO~~

JHANTHAR PUN



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RANJEET KUMAR RAUT S O RAM GULAM RAUT
S/O RAM GULAM RAUT, VILL PO BHEJA
WARD 7, ANCHAL MADHEPUR, DIST MADHUBANI
847408
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	84850300001957
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2103242055
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	MP6D04124
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	84850200000069
शाखा का नाम/Branch Name	LAXMIPUR MADHEPUR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination	Y
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1260
पैन नंबर / PAN No.	ASLPR6594D
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लियन चिह्नित / Lien Marked	N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
262000	21-03-2024	7.25	36 Months 0 Days	21-03-2027	325023

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

- ब्याज दर प्रतिवर्ष में निर्धारित है।
 - ब्याज गणनाकरण वार्षिक।
 - यदि अवधि अनुसार न दिए जाते 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
 - कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।
 - फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।
 - निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी 15 एच 15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।
 - फॉर्म 15एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।
 - प्रीमच्यूर वॉथड्रॉ क्लॉज:
- क 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् इसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- क 2 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् इसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। क 3 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए आहरण की तिथि से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।
- क 4 प्रत्येक ब्याज अवधि - प्रीमच्यूर वॉथड्रॉ की अनुमति नहीं है।

- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause:
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

जमा 70 E.E.P.W.D.W.D. निमा

बंके बैंक ऑफ बड़ौदा
FOR BANK OF BARODA

शाखा प्रबंधक / Branch Manager
लक्ष्मीपुर मधेपुर शाखा / Laxmipur Madhepur Branch

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RANJEET KUMAR RAUT S O RAM GULAM RAUT
S/O RAM GULAM RAUT, VILL PO BHEJA
WARD 7, ANCHAL MADHEPUR, DIST MADHUBANI
847408
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	84850300002123
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2108242612
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	MP6D04124
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	84850200000069
शाखा का नाम/Branch Name	LAXMIPUR MADHEPUR

योजन / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination	Y
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	123
पैन नंबर / PAN No.	ASLPR6594D
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लियन चिह्नित / Lien Marked	N

संयुक्त धारक / Joint Holder (%)	
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
750000	20-08-2024	7.15	36 Months 0 Days	20-08-2027	309224

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:


- ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है।
- स्वतः नवीकरण क्लॉज
- यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का स्वतः नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
- यदि निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।
- फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।
- निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी और 15एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्वतः पर कर कटौती की जाएगी।
- फॉर्म 15एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।
- परिपक्वता आहरण क्लॉज:
- रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् जमा जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् जमा जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा, रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।
- प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।

- Rate of Interest is in percentage per annum
- Automatic Renewal Clause:
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Placed to E.E. R.W.D.W.D - Branch, Jhanjharpur

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Rekha
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
(Jhanjharpur)
30/9/24



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RANJEET KUMAR RAUT S O RAM GULAM RAUT
S/O RAM GULAM RAUT, VILL PO BHEJA
WARD 7, ANGHAL MADHEPUR, DIST MADHUBANI
847408
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	84850300002086
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2108243042
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	MP6D04124
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	84850200000069
शाखा का नाम/Branch Name	LAXMIPUR MADHEPUR

योजना Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination	Y
नामित पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	.
पैन नंबर / PAN No.	ASLPR6594D
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लियन चिह्नित / Lien Marked	N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
216350	18-07-2024	7.25	0 Months 399 Days	21-08-2025	216350

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है.
- ऑटो नवीकरण क्लॉज:
i) 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का ब्याज दर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.
ii) 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.
- फॉर्म 15G और 15H सिर्फ निवासी खातों के लिए है.
- निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पार होने से पूर्व एक नया 15G/15H (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.
- फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा.
- प्रीमच्यूर वॉथड्रॉ क्लॉज:
i) 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ब्याज दर के लिए पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
ii) 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ब्याज दर के लिए पर लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, रु. 1 करोड़ से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए.
- नॉन-कॉलैबल जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है.

- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause:
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause:
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.

PLEDGE TO E.E.R.W.D.W.D - Kirout Jharjharpur

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Executive Engineer
R.W.D Works Division
(Bhanga)
30.9.24

